

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०

राज्यपाल ने विभूतियों को सम्मानित किया

लखनऊ: 09 दिसम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में संस्था मीडिया प्लानर एवं अविरल ग्रुप द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुस्तक 'मार्वलस रिकार्ड्स बुक ऑफ इण्डिया' का विमोचन किया तथा अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु अनेक नामचीन हस्तियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में महिला कल्याण एवं पर्यटन मंत्री डा० रीता बहुगुणा जोशी, विधि एवं न्याय मंत्री श्री बृजेश पाठक, रिकार्ड्स बुक के सम्पादक डा० शशिकांत तिवारी सहित अन्य विशिष्टजन भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने पुस्तक मार्वलस रिकार्ड्स बुक ऑफ इण्डिया की सराहना करते हुए कहा कि सूर्य की तरह जगत वंदनीय होने के लिए निरन्तर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सूर्य इसलिए वंदनीय है कि वह निरन्तर चलता रहता है और दूसरों को प्रकाश व ऊर्जा देता है। समाज को कुछ देने वाली विभूतियों की विशेषता को लेकर संग्रहित पुस्तक निश्चित रूप से अभिनन्दनीय है। किताब पढ़ने का अप्रतिम आनन्द होता है। उन्होंने कहा कि दूसरे लोग किताब से निश्चित रूप से प्रेरणा प्राप्त करेंगे।

श्री नाईक ने 'मार्वलस लीजेन्ड समिट 2017' के आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे मुंबई के हैं जहाँ लोग जीविकोपार्जन के लिए दिनभर भागदौड़ करते हैं इसलिए वह देश की आर्थिक राजधानी है। दिल्ली देश की राजनैतिक राजधानी है तथा काशी को सांस्कृतिक राजधानी है। लखनऊ में कला, साहित्य, संगीत, नृत्य आदि के लगातार कार्यक्रम होते हैं जिससे यह कहा जा सकता है कि लखनऊ देश की कला की राजधानी है।

कार्यक्रम में राज्यपाल ने मार्वलस लाइफटाईम अचीवमेंट अवार्ड से पद्म विभूषण श्री बिन्देश्वर पाठक, पद्म श्री डा० सोमा घोष, क्रिकेटर श्री चेतन शर्मा, श्री जानेन्द्र पाण्डेय, मेट्रो के प्रबंध निदेशक श्री कुमार केशव को एवं मार्वलस पर्सनालिटी ऑफ इण्डिया सम्मान से प्रो० मनोज दीक्षित, डा० मनोज पटारिया, सुश्री शाईस्ता अम्बर, डा० उर्वशी साहनी, सुश्री पल्लवी फौजदार, श्री राजीव खण्डेलवाल, श्री मनोज मंतसिर, श्री रजनीश दुग्गल, सुश्री मीनाक्षी दीक्षित, श्री पंकज गाहिल, श्री राजीव निगम, श्री एस०के०डी० सिंह, सुश्री नीलू मिश्रा, डा० संकल्प जैन, श्री गौरव गुप्ता को तथा मार्वलस पर्सनालिटी ऑफ इण्डिया (आजीवन सदस्य) के रूप में डा० भास्कर शर्मा, डा० मोनिका मिश्रा, डा० एल०एस० सरकार, श्री राधाकांत चैबे, सुश्री अर्चना शुकला, सुश्री कविता यादव, सुश्री नाजिया नफीस, श्री रंजन पाण्डेय, श्री नीलाम्बर कौशिक, श्री विजय भारत, श्री पुनीत कुमार पाण्डेय को सम्मानित किया।

इस अवसर पर मंत्री श्री बृजेश पाठक एवं मंत्री डा० रीता बहुगुणा जोशी ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

अंजुम/ललित/राजभवन (459/18)

